



भारतीय प्रौद्योगिकी
संस्थान जम्मू
INDIAN INSTITUTE OF
TECHNOLOGY JAMMU

विद्यया सर्वधनं प्रथमम्

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जम्मू
जगती, एनएच-44, पीओ नाग्रोटा, जम्मू, जम्मू और कश्मीर 181221
Indian Institute of Technology Jammu
Jagti, NH-44, PO Nagrota, Jammu, J&K 181221

विज्ञापन संख्या / Advt. No: IITJMU/R&C/RP00261 /A-105

दिनांक / Date: 08.04.2025

परियोजना कर्मचारियों के लिए विज्ञापन / Advertisement for project staff

"Investigating role of (a) radial and lateral viscosity changes & (b) Non-Newtonian rheology on intraplate stresses in mantle convection models" sanctioned by DST नामक अनुसंधान एवं विकास परियोजना पर काम करने के लिए **जूनियर रिसर्च फेलो (जेआरएफ)** के पद के लिए भारतीय उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

Applications are invited from the Indian nationals interested in the post of Junior Research Fellow (JRF) to work on the R&D project titled " Investigating role of (a) radial and lateral viscosity changes & (b) Non-Newtonian rheology on intraplate stresses in mantle convection models" sanctioned by DST.

पदों की संख्या No. of Position	स्थिति Position	विशेषज्ञता का क्षेत्र Area of Specialization / Research	अवधि Duration	समेकित वेतन प्रति माह (आईएनआर) Consolidated Salary per Month (INR)
One	Junior Research Fellow	Numerical Modelling, Geophysics, Solid Earth, Fluid Dynamics	Initially for 1 year, can be extendable based on the satisfactory performance. The Position is co-terminus with the project.	INR 31,000 plus 16 % HRA

आवश्यक योग्यता और मानदंड / Minimum Qualification and Criteria:

Candidates should have a B.Tech./B.E./M.Tech/M.E. degree in Mechanical Engineering, Civil Engineering, Engineering Physics or a related field or an equivalent degree programme, with a minimum of 60% marks (or 6.5/10 CGPA) throughout their academic career, starting from Class XII. A valid GATE score is preferred, and PhD candidates who have submitted their thesis may also apply.

Or

Candidates with a Masters' in Geology, Geophysics, Earth Sciences or related/allied areas, with a minimum of 60% marks (or 6.5/10 CGPA) throughout their academic career, starting from Class XII. A valid GATE/NET score is preferred, and PhD candidates who have submitted their thesis may also apply.

Or

Candidates with combined degrees / integrated MSc or M.Tech / Dual Degree in project-related domains may also apply.

Note: Some relaxation can be given at the discretion of the PI and the committee members.

वांछित योग्यता / Desired qualification:

1. Basic knowledge of Numerical Modelling, Fluid Dynamics, and Earth Sciences.

2. Basic knowledge of Coding/Programming.

परियोजना का संक्षिप्त उद्देश्य / **Brief Objective of Project:**

To run mantle convection models in order to constrain radial and lateral viscosity variations in mantle beneath Indian subcontinent. It will be further extended to investigate the role of non-Newtonian rheology on Intraplate stresses within Indian plate.

नौकरी का ववविण / **Job Description:**

The selected candidate is expected to run finite element codes for simulating mantle convection. The project will be implemented using C, Python and UNIX based systems. Therefore, good knowledge of programming will be required to execute the project.

ऊपरी आयु सीमा / **Upper age limit:**

28 years.

(आयु में छूट: एससी/एसटी/ओबीसी/महिला और शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट है)।

(Age relaxation: The upper age limit is relaxable up to 5 years for SC/ST/OBC/women and physically handicapped candidates).

आवेदन प्रक्रिया / **Application Process:**

मांगे गए विवरण, प्रमाणपत्रों की स्कैन की गई प्रतियां, अन्य सहायक दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र **20.04.2025 तक** ऑनलाइन पोर्टल (<https://apply.iitjammu.ac.in/#/home>) के माध्यम से अपलोड किया जाना चाहिए। कृपया संदर्भित आवेदन पोर्टल पर [अनुबंध/प्रोजेक्ट स्टाफ/जेआरएफ/एसआरएफ] टैब के माध्यम से आवेदन करें।

Duly filled application form, along with the requested details, scanned copies of certificates, and other supporting documents, should be uploaded through the online portal (<https://apply.iitjammu.ac.in/#/home>) **by 20.04.2025**. Please apply through the [contract/project staff/JRF/SRF] tab on the referred application portal.

महत्वपूर्ण बिंदु / **Important Points:**

1. आवेदक प्रस्तुत की गई जानकारी, अन्य दस्तावेजों और तस्वीरों की प्रामाणिकता के लिए जिम्मेदार होगा।

The applicant will be responsible for the authenticity of the information, other documents, and photographs submitted.

2. केवल निर्धारित योग्यता रखने से यह सुनिश्चित नहीं हो जाता कि उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। उम्मीदवारों को योग्यता और परियोजना की आवश्यकता के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है।

Merely possessing the prescribed qualification does not ensure that the candidate will be called for an Interview. The candidates may be shortlisted based on merit and need for the project.

3. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को साक्षात्कार के बारे में ई-मेल द्वारा सूचित किया जाएगा। इसलिए, उम्मीदवार को अपने आवेदन में वैध ई-मेल आईडी और फोन नंबर की जानकारी देनी होगी।

Shortlisted candidates will be informed by e-mail about the interview. So, the candidate must provide valid e-mail IDs, and phone number information in their applications.

4. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को साक्षात्कार तिथि पर एक अद्यतन सीवी और अपनी शैक्षणिक योग्यता का समर्थन करने वाली मार्कशीट/प्रमाणपत्र की मूल और सत्यापित फोटोकॉपी के साथ साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना होगा। केवल शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार का समय शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को ई-मेल द्वारा सूचित किया जाएगा। साक्षात्कार ऑनलाइन/ऑफलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके आयोजित किया जाएगा।

Shortlisted candidates must present themselves for the interview on the interview date with an updated CV and original and attested photocopies of mark sheets/certificates supporting their academic qualifications. Only shortlisted candidates will be called for the interview. The time of the interview will be informed to the shortlisted candidates by e-mail. The interview will be held using the online/offline platform

5. पद पर शामिल होने के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को अपने स्वयं के फंड पर आईआईटी जम्मू पहुंचना चाहिए। यदि नौकरी की पेशकश की जाती है तो पद पर शामिल होने के लिए टीए/डीए की अनुमति नहीं है। Candidates called for interview should reach IIT Jammu on their own fund. TA/DA is not permissible to appear offline interview or joining the position if job is offered.

6. जो अभ्यर्थी पहले से ही कार्यरत हैं, उन्हें चयनित होने पर अपने नियोक्ता से कार्यमुक्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। Candidates who are already employed should produce a relieving certificate from their employers if selected.

7. विधिवत भरा हुआ आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि **20.04.2025** है।

The last date for receiving the duly filled-in application is **20.04.2025**.

8. साक्षात्कार की तारीख शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को ईमेल के माध्यम से सूचित की जाएगी। The date of the interview will be informed to the shortlisted candidates through email.

9. उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि के संबंध में सभी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। Candidate must upload all the documents with respect to educational qualification (**10, 12, graduation, post-graduation etc. and also experience, etc.**)

10. उपरोक्त अंग्रेजी और हिंदी दोनों में दर्शाया गया है। भाषा में किसी भी भ्रम/स्पष्टता के मामले में, अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा।

The above are indicated in both English and Hindi. In case of any confusion /clarity in language, the English version will be considered as final

पत्राचार के लिए पता /Address for Correspondence :

डॉ. सृष्टि सिंह / Dr. Srishti Singh

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जम्मू /Indian Institute of Technology Jammu

सिविल इंजीनियरिंग विभाग / Department of Civil Engineering

जगती, एनएच-44 नगरोटा बाईपास जम्मू। 182211 /P.O. Nagrota, Jagti, Jammu, 182211, India

ईमेल / Email: srishti.singh@iitjammu.ac.in